



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 8—सितम्बर 14, 2007 (भाद्रपद 17, 1929)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 8—SEPTEMBER 14, 2007 (BHADRA 17, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

दिनांक 27 अगस्त 2007

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए. 22012/1/2007/पीएमए—राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक, श्री शालीन काबरा, आई.ए.एस. (जे.के.:1992) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 25 अगस्त, 2007 से आगे छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

सं. ए. 22012/1/2007/पीएमए—राष्ट्रपति, डॉ. वीरेन्द्र के. पॉल, आई.एफ.एस. (1991) को प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 24.8.2007 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.के. राय, उप-सचिव

पी.के. राय, उप-सचिव

राज्य सभा सचिवालय

दिनांक 24 अगस्त 2007

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. ए. 22012/1/2007/पीएमए—केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा करने के परिणामस्वरूप, श्री डी.बी. वेंकटेश वर्मा, आई.एफ.एस. (88) ने दिनांक 24 अगस्त, 2007 के अपराह्न से प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सं. आर.एस./2(i)/2002/95—कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने डॉ. योगेन्द्र नारायण, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) के राज्य सभा के महासचिव के रूप में उनके वर्तमान कार्यकाल को राज्य सभा के वर्तमान सत्र के समाप्त होने तक बढ़ा दिया है।

पी.के. राय, उप-सचिव

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 अगस्त, 2007

सं. 181/3/2007 (यूप-ख)--दिनांक 11.07.2007 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक, जिसमें अनजाने में एक रिक्ति सूचित नहीं की जा सकी थी, की अनुशंसा की समीक्षा करने के लिए दिनांक 17.08.2007 को सम्पन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के अनुसरण में तथा आयोग के दिनांक 11.07.2007 के समसंख्यक ज्ञापन के अतिरिक्त में सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित सहायकों को, जो स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, 11.07.2007 से प्रभावी और अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं:--

1. श्री बी.सी. पात्रा
2. श्री ए.के. पाठक
3. श्री एस.के. दास
4. श्री जयदेव लाहिडी
5. श्री अनूप कुमार (अ.जा.)

2. आगे उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में इस समय लम्बित सी.डब्ल्यू.पी. सं. 8225-43/2003 श्री तपन दत्ता तथा अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के अन्तिम निर्णय के अधीन हैं।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-19/जी.-ए./94/4924--श्री रितविक रंजनम पांडेय, आई.ए. एस. (के.एन.:98), जिनकी सेवाएं कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सूचना संख्या 14/3/2006 ई.ओ. (एम.एम.-II) दिनांक 13.08.2007 के अनुसरण में कर्नाटक सरकार कि अधिसूचना संख्या डी.पी.ए.आर. 613 एस.ए.एस. 2006, दिनांक 23.08.2007 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है, को 24.08.2007 से भारत निर्वाचन आयोग में सचिव के रूप में, आगामी आदेशों तक, नियुक्त किया जाता है।

स्टेन्डहोप युहलुंग, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए. 32015/8/2005-प्रशा. IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री आर.एन. सपरा, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.04.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/7/2006-सीएस-II (i) के अनुसार दिनांक 3 अगस्त, 2007 (पूर्वा.) से 31 दिसम्बर, 2007 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेश होने तक जो भी पहले हो, प्रमुख निजी सचिव के पद पर रूपये

10,000-325-15,200/- रूपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. 14020/2/2004-यू.टी.एस.-I--अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियमावली, 1958 के नियम 16 (2) के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ शासित क्षेत्र के संयुक्त संवर्ग के 1970 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी डॉ. के.के. पॉल दिनांक 26 जुलाई, 2007 को सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी.के. गुप्ता, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. 1/3/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री फाल्गुनी राजकुमार, भा.प्र.से. (के.एन.:72) को पूर्वोत्तर परिषद, सचिवालय, शिलांग में 08.08.2007 (अपराह्न) से उनकी अर्धवर्षिता की तारीख 31.01.2009 की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए सचिव नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उप-सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. 13016/05/2006-प्रशिक्षण-I--सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्री नरेश भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी. ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली को 26.07.2007 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबंधन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनीषा भटनागर, अवर सचिव (प्रशिक्षण)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. 24012/33/2006-स्था. (ख)--राष्ट्रपति, श्री आनन्द आचार्य, सहायक स्टाफ अधिकारी, आर्डनेन्स फैक्ट्री बोर्ड, कलकत्ता को दिनांक 26 जुलाई, 2007 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, कर्मचारी चयन आयोग के कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में 10,000-325-15,200/- रूपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप-निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील के. अरोड़ा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2007

आयकर संस्थापना

सं. 10 फा.सं. ए-32012/1/2005-प्रशा. VI--श्री वी.डी. शिशिर कुमार सहायक आयकर आयुक्त (01612) को एतद्वारा दिनांक 13.04.2006 से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में आयकर उपायुक्त के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत किया जाता है।

राहुल कश्यप, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. ए-19012/18/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की कनिष्ठ समय वेतनमान अधिकारी सुश्री प्रतिभा ए. (भारतीय आर्थिक सेवा) को दिनांक 11 जून, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए-19012/22/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सांख्यिकी अन्वेषक श्री राम दयाल को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 03 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति (तदर्थ) आधार पर आर्थिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2007

सं. ए-22011/1/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड अधिकारी, श्री सी.एस. मोहपात्रा (आई.ई.एस) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में 16 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए-22011/1/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड अधिकारी, श्री जे.एस. कोछड़ (आई.ई.एस) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में 31 जुलाई, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक अपर आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

सं. ए-22011/1/2007-प्रशा. Iए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ सावधिक वेतनमान अधिकारी, श्री शकील आलम (आई.ई.एस) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-16,500/- रुपये के वेतनमान में 02 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक उपनिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-19011/3/2007-प्रशा. 3--राष्ट्रपति, श्री सुमित बोस, भा.प्र.से. (म.प्र.:76) को तेरहवें वित्त आयोग की स्थापना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने हेतु 20 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से और आयोग के कार्यकाल के सहविस्तारी आधार पर अथवा अगले आदेश तक, जो पहले हो, अपर सचिव के रैंक और वेतन में तेरहवें वित्त आयोग में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस.के. धिल्लियाल, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 03 अगस्त 2007

सं. ए-32014/1/2004-स्था.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को 31 दिसम्बर 2007 तक अथवा नियमित पदधारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं :-

1. श्री आर.पी. बहुगुणा, (वरिष्ठता सूची-1989)
2. श्री एम.के. सिंह, (वरिष्ठता सूची-1989)
3. श्री ए.के. शर्मा, (वरिष्ठता सूची-1989)
4. श्री वी.के. शर्मा, (वरिष्ठता सूची-1990)
5. श्री सुशील कुमार, (वरिष्ठता सूची-1990)
6. श्री आर.एस. गुलियानी, (वरिष्ठता सूची-1990)
7. श्रीमती शशि कला, (वरिष्ठता सूची-1990)
8. श्रीमती कुमुस, (वरिष्ठता सूची-1990)
9. श्री सतिन्दर कुमार, (वरिष्ठता सूची-1990)
10. श्री अशोक अग्रवाल, (वरिष्ठता सूची-1990)
11. श्री जे.के. ग्रोवर, (वरिष्ठता सूची-1991)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इस ग्रेड में अल्पावधिक आधार पर उनके द्वारा की गई सेवाओं की, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु गणना नहीं की जाएगी।

एस.पी.एस. सांगवान, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए-32013/7/2005-प्रशा.1/2006--राष्ट्रपति, श्री आलोक चन्द्र, (आई.ई.एस.) को दिनांक 16 अगस्त, 2007 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 14,300-400-18,300/-रूपए के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में नियुक्त करती हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए-32013/1/2006-संवर्ग--राष्ट्रपति कृषि संवर्ग की सुश्री सुभाष शर्मा, आशुलिपिक ग्रेड ए एवं बी (विलियत) को और जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पूर्ति संवर्ग में नामांकित किया गया है, दिनांक 10.07.2007 (पूर्वाह्न) से 31.12.2007 तक 10,000-325-15,200/-रूपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

2. पूर्ति संवर्ग में सुश्री सुभाष शर्मा, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.12.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/7/2006-सी.एस.-II तथा दिनांक 13.07.2007 के कार्यालय आदेश सं. 5/6/2007 सी.एस.-II के अनुसरण में हुई है और इसी शर्त के तहत है कि यह प्रोन्नति विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर है यह नियुक्ति उन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। यह नियुक्ति उस तिथि से प्रभावी है जिस तिथि से उन्होंने केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, के पूर्ति प्रभाग में प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्य ग्रहण किया है अर्थात् 10.07.2007 (पूर्वाह्न)।

3. सुश्री सुभाष शर्मा, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

वी.के. शर्मा, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 2007

सं. 2(4)/2006-स्थापना--राष्ट्रपति, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री सुभाष चन्द्र को दिनांक 6.7.2007 (पूर्वाह्न) से 31.12.07 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

तदर्थ आधार पर की गई यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर होगी:--

इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित काल तक इस पद पर बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय

सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा; तथा

तदर्थ आधार पर की गई यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2007

सं. 6(1)/90-स्थापना (II)--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और इस्पात मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री आर.एस. राव दिनांक 30.06.2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. 2(5)/2007-स्थापना--इस्पात मंत्रालय में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, श्री भीम सिंह (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) की सहायक निदेशक (राजभाषा) (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा) के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 23.01.2008 तक अथवा नियमित व्यवस्था किए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाई जाती है।

इस तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए प्रवर सूची में शामिल किए जाने अथवा सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जी. वैधीश्वरण, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभागों)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2007

सं. ए-23011/1/2007-मा.सं-II--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.12.2005 के का.ज्ञा. संख्या 7/4/2006-सीएस.1 तथा दिनांक 3.7.2007 के का. ज्ञा. सं. 21/61/2005-सी.एस.-I द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सीसीएस के नियमित सहायक श्री आर. के. अहलावत, जो चयन सूची वर्ष-1993/एसक्यू (एससी) से संबंधित हैं और संयुक्त उर्वरक संवर्ग की नामावली में शामिल हैं, को दिनांक 19.07.2007 (पूर्वाह्न) से 31.12.2007 अपराह्न तक की अवधि के लिए या जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा पदोन्नति के सामान्य चैनल के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) का नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. इस तदर्थ पदोन्नति से उच्च ग्रेड में निश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार बनने या अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. उन्हें रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. ए-19014/02/2007-प्रशा. I (ए)--इस विभाग की दिनांक 29 जून, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, डा. (श्रीमती) नीलिमा आलम को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर वैज्ञानिक "सी" के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 29.06.2007 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. ए-19013/02/2005-प्रशा. I (ए)--इस विभाग की दिनांक 28 जुलाई, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वैज्ञानिक "ई" डा. बी.सी. गोयल की 16,400-450-20,000 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक "एफ" के रूप में, 26.07.2007 से 25.07.2008 तक आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित उम्मीदवार के प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं। उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II) समय-समय पर संशोधित, में निहित अनुदेशों के अनुसार होगी।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. ए-12025/12/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. देविन्द्र सिंह को 25 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड II (आर्थो सर्जरी) के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें सफदरजंग अस्पताल में विशेषज्ञ ग्रेड II (आर्थो सर्जरी) के पद पर तैनात करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. ए-12025/8/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. साईबल मुखोपाध्याय को केन्द्रीय स्वास्थ्य

2-22261/07

सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदयरोग विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर दिनांक 04.05.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष की परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. ए-12025/14/2006-सी.एच.एस.-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. स्कंद सिन्हा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड II (आर्थो सर्जरी) के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें 11 जून, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में विशेषज्ञ ग्रेड II (आर्थो सर्जरी) के पद पर तैनात करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

दिनांक 23 अगस्त 2007

सं. ए-12025/11/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. जमाल युसुफ को 04.05.2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदयरोग विज्ञान विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा के आधार पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

सं. ए-12025/12/2006-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. विमल मेहता को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदयरोग विज्ञान विशेषज्ञता में दिनांक 01.04.2007 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

राम लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 अगस्त 2007

सं. ए-32013/02/2007-स्थापना-I--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री डी.के. सेनगुप्ता की तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्ति के बारे में इस विभाग के दिनांक 26.07.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के पैरा 2 में निम्नलिखित खण्ड एतद्वारा जोड़ा जाता है:--

"उपरोक्त नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य पीठ, नई दिल्ली की, एम.ए. सं. 2170/2006, ओ.ए. सं. 2793/2005, एम.ए. सं. 2710/2005 में उसके दिनांक 11.01.2007 के आदेश के अधधीन होगी।"

पी.जी. कलाधरन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. 5-11/2006-आई.एन.एम.--राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में कार्यरत डा. जी. चक्रवर्ती, उप निदेशक वेतनमान रु. 10,000--15,200 (समूह क राजपत्रित, जी सी एस अननुसचिवीय) को प्रोन्नति के आधार पर रु. 12,000--16,500 (जी सी एस समूह क राजपत्रित, अननुसचिवीय) के वेतनमान में 25 जुलाई 2007 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी.जे. भट्टाचार्य, उप सचिव (आई.एन.एम.)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2007

सं. 5-1/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति जी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री राजेश शर्मा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000-325-15,200/-रुपये के वेतनमान में दिनांक 16.07.2007 (अपराह्न) से, अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने पद का कार्यभार सम्भाला, अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

महेश अरोड़ा, निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2007

सं. 5-1/2007-प्रशासन--राष्ट्रपति जी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री नवीन यादव को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 10,000-325-15,200/-रुपये के वेतनमान में दिनांक 11.07.2007 (पूर्वाह्न) से, अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने पद का कार्यभार सम्भाला, अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

राजेश शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2007

सं. 3-2/20-प्रशासन--राष्ट्रपति जी सुश्री कल्याणी चड्ढा, आई.आर. एस.एम.ई. (88) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 14,300-400-18,300/-रुपये के वेतनमान में दिनांक 26.06.2007 (पूर्वाह्न) से, अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने पद का कार्यभार सम्भाला, पांच वर्षों तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश शर्मा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त 2007

सं. 13015/1/2005-एससीडी-6--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से चार वर्ष की अवधि या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग (समूह "क" राजपत्रित गैर-मंत्रालीय) में 12,000-375-16,500/-रुपये के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति स्थान
1.	श्री एम. शिवा कुमार	31.05.2007(अपराह्न)	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पुणे
2.	श्री विनोद अग्रवाल	27.07.2007(पूर्वाह्न)	राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, नई दिल्ली

आर.एस. मीणा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 2007

सं. 5-20/2001-एन.आई.-2--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एन एच एफ डी सी) के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 50 के अनुसरण में, इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री संजीव कुमार मिश्रा को पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री मृत्युंजय साहू के स्थान पर एन एच एफ डी सी के निदेशक मंडल में पदेन निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के.एन. मिश्रा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जुलाई 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित श्रेणी "ग" आशुलिपिकों को दूरसंचार विभाग के संवर्ग में 6,500-200-10,500/-रु. के वेतनमान में 01.07.2007 से 31.12.2007 तक 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए या नियमित निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी "क" और "ख" विलयित) के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर निजी सचिव (आशुलिपिक श्रेणी "क" और "ख" विलयित) के रूप में स्थानापन्न तौर पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती वीणा वर्मा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
2.	श्री आर.के. शर्मा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
3.	श्री विक्रम सोलिया	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
4.	श्रीमती सुनीता सिंधु (अ.जा.)	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
5.	श्री जवाहर लाल	01.07.2007 से 31.12.2007 तक

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अवधि
6.	श्रीमती सविता अरोड़ा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
7.	श्रीमती सरोज कपिला	01.07.2007 से 31.12.2007 तक

उपरोक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और उक्त अधिकारियों को संवर्ग में आमेदन या निजी सचिव श्रेणी (आशुलिपिक श्रेणी "क" और "ख" विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(श्रीमती) टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. ए-32013/5/2002-प्रशा. I--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित निजी सचिवों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में दूरसंचार विभाग में 10,000--15,200/-रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 01.07.2007 से 31.12.2007 तक की आगामी 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रधान निजी सचिवों के रूप में नियुक्त करने की अवधि में सहर्ष वृद्धि करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

1. श्री जे. के. जैन
2. श्री एस.बी. संदुजा
3. श्री के. शिवदासन

2. उपरोक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इससे इन अधिकारियों को इन पदों पर अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(श्रीमती) टी. कुंदवी, अवर सचिव

सं. ए-32014/4/2004-प्रशा. II/प्रशा. I--राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में दूरसंचार विभाग में 12,000-375-16,500/-रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर 01.07.2007 से 31.12.2007 तक की आगामी 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिवों के रूप में नियुक्त करने की अवधि में सहर्ष वृद्धि करते हैं:--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

1. श्री प्रीतम चंद
2. श्रीमती जयश्री शिवारमन

2. उपरोक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर हैं और इससे इन अधिकारियों को इन पदों पर अनिश्चितकाल के लिए बने रहने अथवा

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(श्रीमती) टी. कुंदवी, अवर सचिव

सं. ए-32013/8/2005-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.06.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2006-सीएस-1 (घ) के अनुसरण में राष्ट्रपति दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-1 के निम्नलिखित अधिकारियों को चयन सूची वर्ष, 2000 के अनुसार नियमित आधार पर दूरसंचार विभाग में सीएसएस (उप सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन सूची	चयन ग्रेड (उप सचिव) की तारीख	स्वस्थाने	तदर्थ	नियमित
1.	श्री एल.टी. त्तुआंगा	2000	09.08.1999	23.02.2005	01.07.2000	
2.	श्री एल.एस. नेगी	2000	--	25.02.2005	01.07.2000	

(श्रीमती) टी. कुंदवी, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2007

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा. I--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों को इसी विभाग के संवर्ग में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक या आगामी आदेशों तक इनमें जो पहले हो, 6,500-200-10,500/-रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री राम स्वरूप	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
2.	श्री गुरुदयाल सिंह	01.07.2007 से 30.09.2007 तक
3.	श्री एच.एच.के. ओझा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
4.	श्रीमती वीना परिजा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
5.	श्री एस.के. सिन्हा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
6.	श्री आर. विनयन	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
7.	श्रीमती एन.डी. शर्मा	01.07.2007 से 31.10.2007 तक
8.	श्री टी.आर. विजयन नायर	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
9.	श्री पी.के. मंडल	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
10.	श्री आदि राम	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
11.	श्री जी.पी.पी. गुप्ता	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
12.	श्रीमती प्रेरणा शर्मा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक
13.	श्री रेमंड टिंगा	01.07.2007 से 31.12.2007 तक

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी;

(क) इन तदर्थ नियुक्तियों से इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(ख) वरिष्ठता कोटा और/या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवारों के उपलब्ध होने तक यह तदर्थ व्यवस्था जारी रह सकती है। तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी नियमित नियुक्ति हेतु अर्हता प्राप्त न करने पर, उन्हें नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने पर सहायक के ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(श्रीमती) टी. कुंदवी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 30 जुलाई 2007

सं. ए-32014/2/2006-प्रशा.1--राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ग्रेड 'ग' आशुलिपिक श्रीमती बलबीर कौर को, तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक 'क' एवम् 'ख' (विलयित) के पद पर नियुक्ति हेतु दूरसंचार संवर्ग में उनका नामांकन होने के परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 19.07.2007 से 31.12.2007 तक अथवा नियमित निजी सचिव/आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवम् 'ख' (विलयित) की उपलब्धता तक अथवा अगला आदेश दिये जाने तक, इसमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवम् 'ख' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को ग्रेड में आमेसन के लिए अथवा निजी सचिव ग्रेड [आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवम् 'ख' (विलयित)] में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

पी.के. रघुराम, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. ई आर बी-1/2007/2/31--श्रीमती सुधा एम. चौबे, भा.रे.ले.से., महाप्रबंधक, मेट्रो रेल, को 07.08.2007 के अपराह्न से वित्त आयुक्त, रेलें एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है,

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 21 अगस्त 2007

सं. ई आर बी-1/2007/10/4--श्री यशपाल गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी (पीयू), रेलवे बोर्ड अधिवार्धिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2007 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं,

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ई आर बी-1/2007/10/28--श्रीमती ललिता कुमारी, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड का 02.08.2007 को निधन हो गया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 2007

सं. ए-12025/5/2003-स्था.--राष्ट्रपति, श्री डी.जे. बासू, सहायक निदेशक (यांत्रिक) को 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में दिनांक 18.07.2006 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष, जब तक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं करता अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में उप निदेशक (यांत्रिक) (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 22nd August 2007

No. A-22012/1/2007-PMA.—The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Shri Shaleen Kabra, IAS(JK:92) Director in the Prime Minister's Office for a period of six months beyond 25.08.2007.

P.K. ROY, Dy. Secy.

The 24th August 2007

No. A-22012/01/2007-PMA.—Consequent upon completion of tenure on Central Deputation, Shri D.B. Venkatesh Varma, IFS (88) has relinquished the charge of the post of Director in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 24th August, 2007.

P.K. ROY, Dy. Secy.

The 27th August 2007

No. A-22012/1/2007-PMA.—The President is pleased to appoint Dr. Virander K. Paul, IFS (1991) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the afternoon of 24.08.2007 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

P.K. ROY, Dy. Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th August 2007

No. RS/2(i)/2002/95-Perl.—the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the present term of Dr. Yogendra Narain, IAS (Retd.) as Secretary-General, Rajya Sabha till the end of the current session of the Rajya Sabha.

C.B. RAI, Jt. Director

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 23rd August 2007

No. 181/3/2007 (Gr 'B').—In pursuance of the recommendation of the review Departmental Promotion Committee (DPC) meeting, convened on 17.08.2007, to review the recommendation of the earlier DPC meeting held on 11.07.2007 wherein one vacancy in the grade of Section Officer could not be reported inadvertently and in supersession of the Commission's Notification of even No. dated 19.07.2007, the Competent Authority hereby appoints the following Assistants, officiating as Section Officers on ad hoc basis in the Secretariat of the Election Commission of India, as Section Officers on regular basis with effect from 11.07.2007 until further orders:—

1. Shri B.C. Patra
2. Shri A.K. Pathak

3-22251/07

3. Shri S.K. Das

4. Shri Jaydeb Lahiri

5. Shri Anoop Kumar (SC)

2. Further, the above appointments are subject to final outcome of the CWP No. 8225-43/2003-Shri Tapan Datta & Others Vs. Election Commission of India presently pending in the Hon'ble Delhi High Court.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

The 24th August 2007

No. A-19/G-A/94/4924—Shri Ritvik Ranjanam Pandey, IAS, (KN:98) whose services have been placed at the disposal of the Election Commission of India vide the Government of Karnataka's Notification No. DPAR 613 SAS 2006, dated 23.08.2007 in pursuance of the Department of Personnel & Training's Communication No. 14/3/2006-EO(MM-II), dated 13.08.2007, has been appointed as Secretary, Election Commission of India with effect from 24.08.2007 until further orders.

STANDHOPE YUHLUNG, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd August 2007

No. A-32015/8/2005-Admn.IV.(L.A.).—Pursuant to the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/7/2006-CSII (i) dated 17.04.2007, the President is pleased to appoint Shri R.N. Sapra, Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 03.08.2007 (F/N) up to 31.12.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 22nd August 2007

No. 14020/2/2002-UTS.I—Dr. K.K. Paul, Indian Police Service Officer of 1970 batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service voluntarily with effect from 26th July, 2007 in accordance with Rule 16(2) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

V.K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110 011, the 24th August 2007

No. 1/3/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Falguni Rajkumar, IAS (KN:72) as Secretary in the North Eastern Council, Secretariat, Shillong, with effect from 08.08.2007 (Afternoon), for a period upto 31.01.2009, the

date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

S.K. NAYYAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi-110 067, the 20 August 2007

No. 13016/05/2006-Trg.I.—The Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training is pleased to appoint Shri Naresh Bhardwaj, Section Officer, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhavan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi as Assistant Director (Office Management) in the Institute of Secretariat Training and Management (ISTM), New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from 26.07.2007 (forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

MANISHA BHATNAGAR, Under Secy.
(Trg.)

New Delhi, 24th August 2007

No. 24012/33/2006-Estt (B).—The President is pleased to appoint Shri Anindya Acharya, Assistant Staff Officer, Ordnance Factory Board, Kolkata as Deputy Director in the Eastern Regional Office of Staff Selection Commission at Kolkata in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a period of three years with effect from 26th July, 2007 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

SUNEEL K. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 20th July 2007

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 10 (F. No. A-32012/1/2005-Ad.VI).—Shri V.D. Sisirkumar, Assistant Commissioner of Income Tax (01612) is hereby promoted to officiate as Deputy Commissioner of Income Tax in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 13.04.2006.

RAHUL KASHYAP, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 20th August 2007

No. A. 19012/18/2007-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Ms. Prathibha A. (IES), a Junior Time Scale Officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale

of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 11th June, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 23rd August 2007

No. A 19012/22/2007-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Shri Ram Dayal, a Statistical Investigator in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, as Economic Officer in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on deputation (ad hoc) basis, in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500 with effect from the forenoon of 03rd August, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 24th August 2007

No. A. 22011/1/2007-Admn.IA.—The President is pleased to appoint Shri C.S. Mohapatra (IES), a Non-Functional Selection Grade Officer of IES, as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 16th August 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. A. 22011/1/2007-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri J.S. Kochher (IES), a Non-Functional Selection Grade Officer of IES, as Additional Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the forenoon of 31st July, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

No. A.-22011/1/2007-Admn. IA.—The President is pleased to appoint Shri Shakil Alam (IES), a Senior Time Scale Officer of IES, as Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-16,500/- with effect from the forenoon of 02nd August, 2007 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, 22nd August 2007

No. A-19011/3/2007-Ad.III.—The President is pleased to appoint Shri Sumit Bose, IAS (MP:76) as Officer on Special Duty in the Thirteenth Finance Commission, in the rank and pay of Additional Secretary for taking advance action regarding the setting up of the Thirteenth Finance Commission, with effect from the forenoon of 20th August, 2007 and co-terminus with the life of the Commission or until further orders, whichever is earlier.

S.K. GHILDIYAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 03rd August 2007

No. A-32014/1/2004-Estt.—the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Section Officers for the period up to 31st December, 2007 or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

1. Shri R.P. Bahuguna, (SL-1989)
2. Shri M.K. Singh, (SL-1989)
3. Shri A.K. Sharma (SL-1989)
4. Shri V.K. Sharma (SL-1990)
5. Shri Sushil Kumar (SL-1990)
6. Shri R.S. Guliani (SL-1990)
7. Smt. Shashi Kala (SL-1990)
8. Smt. Kusum (SL-1990)
9. Shri Satinder Kumar (SL-1990)
10. Shri Ashok Aggarwal (SL-1990)
11. Shri J.K. Grover (SL-1991)

2. The ad-hoc promotion of the abovementioned officers will not bestow them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

S.P.S. SANGWAN, Under Secy.

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 23rd August 2007

No. A. 32013/7/2005-Admn.I/2006—The President is pleased to appoint Shri Alok Chandra, (IES) in the grade of Director in pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in Ministry of Finance, Department of Expenditure with effect from the forenoon of 16th August, 2007 and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Supply Division)

New Delhi, the 23rd August 2007

No. A-32013/1/2006-Cadre.—The President is pleased to appoint Ms. Subhash Sharma Steno Grade A&B (merged) of the cadre of Agriculture and nominated to the cadre of Supply of CSSS to the grade of Principal Private Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on adhoc basis w.e.f. 10.07.2007 (FN) to 31.12.2007.

2. The appointment of Ms. Subhash Sharma PPS (adhoc) in the cadre of Supply is in pursuance of DoP&T's O.M. No. 5/7/2006-CS.II dated the 20.12.2006 and O.M. No. 5/6/2007 CS.II dt. 13.07.2007 and is subject to the condition that the

order of adhoc promotion is purely on adhoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary's Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS. The appointment is with effect from the date she assumed the charge of the post of PPS in the Supply Division of CSSS i.e., 10.07.2007 (FN).

3. Ms. Subhash Sharma, PPS (adhoc) is posted in DGS&D.

V.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 6th July 2007

No. 2(4)/2006-Estt.—The President is pleased to appoint on ad-hoc basis Shri Subhash Chander, Assistant of CSS cadre of Ministry of Steel as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Steel w.e.f. 06.07.2007 (FN) upto 31.12.2007 or until further orders, whichever is earlier.

The ad-hoc appointment will be subject of the following conditions:—

It shall not confer any right to continue indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion or to claim seniority in the grade of Section Officer of the CSS; and

The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 9th July 2007

No. 6(1)/90-Estt.(II)—Shri R.S. Rao, an Officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Steel has retired from service on 30.06.2007 (A/N).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

The 20th August 2007

No. 2(5)/2007-Estt.—The ad-hoc appointment of Shri Bhim Singh, Senior Hindi Translator (CSOLS) in the Ministry of Steel as Assistant Director (OL) (CSOLS) in the Ministry of Steel is extended upto 23.01.2008 or till regular arrangement is made whichever is earlier.

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the select list for regular appointment or to claim seniority in the Grade of Assistant Director (OL).

G. VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 19th July 2007

No. A-23011/1/2007-HR.II.—In terms of instructions issued by the Department of Personnel and Training vide their

O.M. No. 7/4/2006-CS.I dated 13.12.2005 and O.M. No. 21/61/2005-CS.I dated 03.07.2007, Shri R.K. Ahlawat a regular Assistant of CSS belonging to the Select List Year- 1993/SQ (SC) and borne on the combined Fertilizer cadre is appointed as Section Officer of Central Secretariat Service in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on a purely ad-hoc basis w.e.f. 19.07.2007 (F/N) for a period up to 31.12.2007 (A/N) or till regular Section Officers of CSS are made available by the DoPT through normal channel of promotion, whichever is earlier.

2. This ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the higher Grade indefinitely or create grounds for inclusion of name in the Select List of Section Officers of CSS for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade.

3. He is posted in the Department of Chemicals and Petrochemicals as Section Officer.

RAGHUNATH RAI, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 16th August 2007

No. A.19014/02/2007-Admn.I(A)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 29th June, 2007, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Neelima Alam as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on temporary basis in the Department of Science & Technology w.e.f. 29.06.2007 (FN) and until further orders.

S.P. KATNAURIA, Under Secy.

The 20th August 2007

No. A. 19013/02/2005. Admn.I(A)—In continuation of this Department's Notification of even number dated 28th July, 2006, the President is pleased to extend the term of deputation of Dr. V.C. Goyal, of Scientist 'E', National Institute of Hydrology, Roorkee as Scientist 'F' in the Department of Science & Technology in the scale of pay of Rs. 16,400-450-20,000 for a further period of one year from 26.07.2007 to 25.07.2008 or until regular candidate joins on repatriation from deputation or until further orders, whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

S.P. KATNAURIA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 20th August 2007

No. A.-12025/12/2006-CHS-IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Davinder Singh to the post of Specialist Gr. II, (Ortho Surgery) in the Non-Teaching

Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation and post him with the Safdarjang Hospital as Specialist Grade II (Ortho Surgery) w.e.f. the forenoon of 25th January, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 21st August 2007

No. A. 12025/8/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Saibal Mukhopadhyay to the post of Assistant Professor in the speciality of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 04.05.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 22nd August 2007

No. A. 12025/14/2006-CHS-IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Skand Sinha to the post of Specialist Gr. II (Ortho Surgery) in the Non-Teaching Specialist sub-cadre of Central Health Service, on probation and post him with the Dr. R.M.L. Hospital as Specialist Grade II (Ortho Surgery) w.e.f. the forenoon of 11th June, 2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

The 23rd August 2007

No. A. 12025/11/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jamal Yusuf to the post of Assistant Professor in the speciality of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 04.05.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

No. A. 12025/12/2006-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vimal Mehta to the post of Assistant Professor in the speciality of Cardiology in the Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation for a period of one year with effect from the forenoon of the 01.04.2007 until further orders.

RAM LAL, Under Secy.

(DEPTT. OF HEALTH & FW)

New Delhi, the 13rd August 2007

No. A-32013/02/2007-E.I.—The following clause in para 2 of this Department's Notification of even No. dt. 26.07.2007

regarding appointment of Sh. D.K. Sengupta, Section Officer of CSS, as Under Secretary on ad hoc basis, in the Department of Health & FW, is hereby added:—

“The aforesaid appointment shall further be subject to the order, dated 11.01.2007 of the Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi in M.A. No. 2170/2006, O.A. No. 2793/2005, M.A. No. 2710/2005.”

P.G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOP)

New Delhi, the 16th August 2007

No. 5-11/2006-INM.—The President is pleased to appoint Dr. G. Chakraborti, Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- (Group A Gazetted, GCS, Non-Ministerial) Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, a subordinate office under the Department of Agriculture and Cooperation, to the post of Joint Director, Central Fertiliser Quality Control & Training Institute, Faridabad in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- (GCS Group A Gazetted, Non-Ministerial) on promotion basis with effect from the forenoon of 25th July 2007 and until further orders.

B.J. BHATTACHARYA, Dy. Secy. (INM)

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th July 2007

No. 5-1/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Sharma of CSS as Under Secretary (Grade-I) on ad-hoc basis in the Ministry of Women and Child Development, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 16.07.2007 (AN) i.e., the date from which he has assumed the charge of the said post.

MAHESH ARORA, Director (Admn.)

New Delhi, the 13th July 2007

No. 5-1/2007-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Naveen Yadav of CSS as Under Secretary (Grade-I) on ad-hoc basis in the Ministry of Women and Child Development, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 11.07.2007 (FN) i.e., the date from which he has assumed the charge of the said post.

RAJESH SHARMA, Under Secy.

The 21st July 2007

No. 3-2/2006-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Kalyani Chadha, IRSME (88) as Director in the Ministry of Women and Child Development, in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 26.06.2007 (FN) i.e., the date from which she has assumed the charge of the said

post, for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 14th August 2007

No. 13015/1/2005-SCD-VI.—The President is pleased to appoint the following officers as Director in the Ministry of Social Justice & Empowerment, Ministry of Tribal Affairs, National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes (Group 'A' Gazetted-Non-Ministerial) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis with effect from the dates shown against their names for the period of four years or until further orders :—

S. No.	Name	Date of appointment	Place of posting
	S/Shri		
1.	M Shiva Kumar	31.05.2007(A.N.)	National Commission for Scheduled Castes, Pune
2.	Vinod Aggarwal	27.07.2007(F.N.)	National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi

R.S. MEENA, Director

New Delhi-1, the 22nd August 2007

No. 5-20/2001-NI.II.—In pursuance of Articles 50 of the Articles of Association of the National Handicapped Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kumar Mittal, Joint Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Social Justice & Empowerment, as an Ex-Officio Director on the Board of Directors of the National Handicapped Finance & Development Corporation for a period of 3 years in place of Shri Mrityunjaya Sahoo, former Joint Secretary and Financial Adviser or until further orders.

K.N. MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110 001, the 23rd July 2007

No. A-32014/2/2006-Admn.I.—The President is pleased to permit the following Stenographers Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of Department of Telecommunications for a further period of 6 months with

effect from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular Private Secretary {Stenographer Grade 'A&B' (Merged)} become available or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1.	Smt. Veena Verma	01.07.2007 to 31.12.2007
2.	Shri R.K. Sharma	01.07.2007 to 31.12.2007
3.	Shri Vikram Solia	01.07.2007 to 31.12.2007
4.	Smt. Sunita Sidhu (SC)	01.07.2007 to 31.12.2007
5.	Shri Jawahar Lal	01.07.2007 to 31.12.2007
6.	Smt. Savita Arora	01.07.2007 to 31.12.2007
7.	Smt. Saroj Kapila	01.07.2007 to 31.12.2007

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers for absorption in the grade or to claim seniority in the Private Secretary grade {(Stenographer Grade 'A&B' (Merged))}.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 30th July 2007

No. A-32013/5/2002-Admn.I.—The President is pleased to extend the term of appointment of the following Private Secretaries of this Department as Principal Private Secretaries on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200/- in the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of Department of Telecommunications for a further period of 6 months with effect from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular PPSs become available or until further orders, whichever is earlier:—

Sl No.	Name of the Officer
1.	Shri J.K. Jain
2.	Shri S.B. Sanduja
3.	Shri K. Sivadasan

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the Principal Private Secretary grade of CSSS.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

No. A-32014/4/2002-Admn.II.—The President is pleased to extend the term of appointment of the following Principal Private Secretaries of this Department as Senior Principal Private Secretaries on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Central Secretariat Stenographers' Service cadre of Department of Telecommunications for a further period of 6 months with effect from 01.07.2007 to 31.12.2007 or till regular Sr. PPSs

become available or until further orders, whichever is earlier:—

Sl No. Name of the Officer

1. Shri Pritam Chand
2. Smt. Jayashree Sivaraman

2. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officers to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the Senior Principal Private Secretary grade of CSSS.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

No. A. 32013/8/2005-Admn.I.—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/2/2006-CS.I (D), dated 29.06.2007, the President is pleased to appoint the following Grade-I officers of the Central Secretariat Service (CSS) of the Department of Telecommunications, Ministry of Communication & Information Technology to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) on regular basis against the Select List Year 2000 in the Department of Telecommunications:—

S.N.	Name of the Officer	Select List	Date of Appointment in Selection Grade (Deputy Secretary)		
			In-situ	Ad hoc	Regular
1.	Shri L.T. Thuanga	2000	09.08.99	23.02.05	01.07.2000
2.	Shri L.S. Negi	2000	-do-	25.02.05	01.07.2000

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 31st July 2007

No. A. 32014/1/2006-Admn.I.—The President is pleased to permit the following Assistants of CSS Cadre of Department of Telecommunications to continue to officiate as Section Officers of CSS Cadre on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500 in the cadre of Department of Telecommunications for a period indicated against each or till the availability of regular Section Officers of CSS cadre or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name of the Officer	Period
1	2	3
	S/Shri	
1.	Ram Swarup	01.07.2007 to 31.12.2007
2.	Gurdiyal Singh	01.07.2007 to 30.09.2007
3.	H.H.K. Ojha	01.07.2007 to 31.12.2007
4.	Smt. Veena Prinja	01.07.2007 to 31.12.2007
5.	S.K. Sinha	01.07.2007 to 31.12.2007
6.	R. Vinayan	01.07.2007 to 31.12.2007
7.	Smt. N. D. Sharma	01.07.2007 to 31.10.2007
8.	T.R. Vijayan Nair	01.07.2007 to 31.12.2007

1	2	3
9.	P.K. Mondal	01.07.2007 to 31.12.2007
10.	Adi Ram	01.07.2007 to 31.12.2007
11.	G.P.P. Gupta	01.07.2007 to 31.12.2007
12.	Smt. Prerna Sharma	01.07.2007 to 31.12.2007
13.	Raymond Tigga	01.07.2007 to 31.12.2007

2. Ad hoc promotions/appointments to the grade of Section Officer is subject to the following conditions:—

- (a) The ad-hoc appointments shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely, or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;
- (b) ad-hoc arrangements may continue till regular candidate in Section Officer Grade is available either through seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officer.

Smt. T. KUNDHAVI, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 30 July 2007

No. A-32014/2/2006-Admn.I.—Consequent on her nomination to Telecommunications cadre for appointment as Stenographer 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad hoc basis, the President is pleased to appoint Smt. Balbir Kaur, a Steno Grade 'C' of Ministry of Human Resource Development, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS on ad-hoc basis in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs.6,500-200-10,500/- w.e.f. 19.07.2007 to 31.12.2007 or till the availability of regular Private Secretary {Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)} or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officer for absorption in the

grade or to claim seniority in the Private Secretary Grade {Stenographer Grade 'A' & 'B' (merged)}.

P.K. RAGHURAM, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 20th August 2007

No. ERB-1/2007/2/31—Smt. Sudha M. Chobe, IRAS, General Manager, Metro Railway, is appointed as Financial Commissioner, Railways and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 07.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

The 21st August 2007

No. ERB-1/2007/10/4.—Shri Yashpal Gupta, OSD(PU), Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2007.

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

No. ERB-1/2007/10/28.—Smt. Lalita Kumari, Section Officer, Railway Board Expired on 02.08.2007.

MATHEW JOHN, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110 001, the 20th August 2007

No. A-12025/05/2003-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri D.J. Basu, Deputy Director (Mechanical) (General Central Service 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- from 18.07.2006 (FN) for a period of one year or until further orders, whichever is earlier. The other conditions would remain same as indicated in this Ministry's Office Order No. 6/2004 dated 19.01.2004 (A-12025/5/2003-Estt.).

SUBHASH CHAND, Under Secy.